



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 368]
No. 368]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 1981/कार्तिक 22, 1903
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 1981/KARTIKA 22, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1981

सा. का. नि. 597 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, कच्चे लोहे को, जब उसका आयात भारत में किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय उतने सीमा शुल्क से, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, और उस पर द्वितीय उल्लिखित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 15 मई 1982 तक, जिसमें यह सारीख भी सम्मिलित है प्रभावी रहेगी।

[फा. सं 355/21/81-सी.शु./सं 241/81-सीमा शुल्क]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 13th November, 1981

G.S.R. 597(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts pig iron, when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 15th May, 1982.

[F. No. 355/21/81-Cus-I/No. 241/81-Customs]

सा. का. नि. 598(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का 16) की धारा 47 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में

ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 129-सीमा शुल्क, तारीख 12 मई, 1981 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्यांक 203 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“204 सं. 241-सीमा शुल्क, तारीख 13 नवम्बर, 1981” ।

[फा. सं. 355/21/81-सी. शु. /स. 242/81-सीमा शुल्क]

G.S.R. 598(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 47 of the Finance Act, 1981 (16 of 1981), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 129-Customs, dated the 12th May, 1981, namely :—

In the Schedule to the said notification, after Serial No. 203 and the entry relating thereto, the following Serial No. and entry shall be inserted, namely :—

“204. No. 241-Customs, dated the 13th November, 1981”.

[F. No. 355/21/81-Cus. I/No. 242/81-Customs]

सा. का. नि. 598(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, टिन प्लेटों के विनिर्माण के लिए टिन मिल ब्लैक प्लेट को, जब उसका आयात भारत में किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय उसने सीमा शुल्क से, जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, और उस पर द्वितीय उल्लिखित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है ।

2. यह अधिसूचना 30 सितम्बर, 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेगी ।

[फा. सं. 355/18/81-सीमा शुल्क/सं 243/81-सीमा शुल्क]

G.S.R. 599(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52

of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts tinnmill black plate, when imported into India for the manufacture of tin plates, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act.

2 This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th September, 1982.

[F. No. 355/18/81-Cus-I/No. 243/81-Customs]

सा. का. नि. 600 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का 16) की धारा 47 की उपधारा (4) के माध्यम से पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 129-सीमा शुल्क, तारीख 22 मई, 1981 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्यांक 204 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“205 सं. 243-सीमा शुल्क, तारीख 13 नवम्बर, 1981” ।

[फा. सं. 355/18/81-सी. शु. /स. 244/81-सीमा शुल्क]

आनन्द छाबड़ा, उप-सचिव

G.S.R. 600(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 47 of the Finance Act, 1981 (16 of 1981), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 129-Customs, dated the 12th May, 1981, namely :—

In the Schedule to the said notification, after Serial No. 204 and the entry relating thereto, the following Serial No. and entry shall be inserted, namely :—

“205 No. 243-Customs, dated the 13th November, 1981”.

[F. No. 355/18/81-Cus-I/No. 244/81-Customs]

A. K. CHHABRA, Dy. Secy.